

## चक्रवात दाना का झारखंड पर प्रभाव

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [चक्रवात दाना](#) के कारण पूरबी भारत, विशेषकर झारखंड में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका है, जिसके कारण कई आपातकालीन उपाय लागू किये जा रहे हैं।

### मुख्य बंदि

- भारी वर्षा और बाढ़ का खतरा: भारतीय मौसम वजिज्ञान वभिाग (IMD) ने झारखंड में 24 से 25 अक्टूबर, 2024 तक भारी वर्षा का अनुमान लगाया है, जिससे बाढ़ की आशंका बढ़ गई है, खासकर संवेदनशील नचिले इलाकों में।
- परविहन में व्यवधान: झारखंड सहति पूरबी भारत के कुछ हसिंसों में रेल सेवाएँ बुरी तरह प्रभावति हुई हैं तथा प्रतकूल मौसम की स्थति के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनश्चिति करने के लयि एहतयाती उपाय के रूप में 150 से अधिक रेलगाड़ियाँ रद्द कर दी गई हैं।
- NDRF और SDRF की तैयारी: राष्ट्रीय आपदा प्रतकिरयिा बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतकिरयिा बल (SDRF) की टीमें हाई अलर्ट पर हैं और आपात स्थति में त्वरति तैनाती के लयि तैयार हैं।
- मछुआरों और तटीय गतविधियों के लयि सलाह: IMD ने मछुआरों के लयि सख्त चेतावनी जारी की है और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। 100-110 कमी./घंटा तक पहुँचने वाली तेज हवा की गत तटीय और आस-पास के क्षेत्रों को प्रभावति कर सकती है, जिससे मछली पकड़ने और समुद्री गतविधियों पर नरिभर स्थानीय अर्थव्यवस्थाएँ प्रभावति हो सकती हैं।
- नकिसी और सार्वजनिक सुरक्षा चेतावनियाँ: अधिकारी संभावति नकिसी के लयि तैयारी कर रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ चक्रवात का प्रभाव गंभीर हो सकता है। यह सुनश्चिति करने के लयि सार्वजनिक सलाह जारी की जाती है कनिवासियों को चक्रवात के गुजरने के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में पता हो।

### चक्रवात दाना

- उदभव: यह [उत्तरी हदि महासागर क्षेत्र](#) में बनने वाला तीसरा चक्रवात है और वर्ष 2024 में भारतीय तट पर [चक्रवात रेमल](#) के बाद आने वाला दूसरा चक्रवात है।
- यह [मानसून](#) बाद के चक्रवाती मौसम का पहला चक्रवात है।
- दाना का नामकरण: [वशि्व मौसम वजिज्ञान संगठन \(WMO\)](#) का कहना है कचक्रवात दाना का नाम कतर ने रखा था। अरबी में, "दाना" का अर्थ है 'उदारता' और इसका अर्थ है 'सबसे सही आकार का, मूल्यवान और सुंदर मोती'।



# चक्रवात



## परिचय


चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके आस-पास तेजी से इसके केंद्र की ओर वायु परिसंचरण होते हैं।

## चक्रवात बनाम प्रतिचक्रवात

दबाव प्रणाली	केंद्र में दबाव की स्थिति	हवा की दिशा का पैटर्न	
		उत्तरी गोलार्द्ध	दक्षिणी गोलार्द्ध
चक्रवात	निम्न	वामावर्त	दक्षिणावर्त
प्रतिचक्रवात	उच्च	दक्षिणावर्त	वामावर्त

## वर्गीकरण

उष्णकटिबंधीय चक्रवात; मकर और कर्क रेखा के बीच उत्पन्न होते हैं।



अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय/समशीतोष्ण चक्रवात; ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं।

### गठन के लिए शर्तें:

- \* 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह।
- \* कोरिओलिस बल की उपस्थिति।
- \* ऊर्ध्वाधर/लंबवत हवा की गति में छोटे बदलाव।
- \* पहले से मौजूद कमजोर निम्न-दबाव क्षेत्र या निम्न-स्तर-चक्रवात परिसंचरण।
- \* समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन (Divergence)।

### नामकरण:

- \* **नोडल प्राधिकरण:** विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)
- \* **हिंद महासागर क्षेत्र:** बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड इस क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों के नामकरण में योगदान करते हैं।

### उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिये अलग-अलग नाम:

- \* **टाइफून:** दक्षिण पूर्व एशिया और चीन
- \* **हरिकेन:** उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत
- \* **टॉर्नेडो:** पश्चिम अफ्रीका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका
- \* **विली-विलीज:** उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया
- \* **उष्णकटिबंधीय चक्रवात:** दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर
- \* **भारत में चक्रवात:**
  - \* **द्वि-वार्षिक चक्रवात मौसम:** मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर।
  - \* **हाल के चक्रवात:** ताउते, वायु, निसर्ग और मेकानु (अरब सागर में) तथा असानी, अम्फान, फोनी, निवार, बुलबुल, तितली, यास और सितरंग (बंगाल की खाड़ी में)।